

प्रेस विज्ञप्ति

जनपद मुरादाबाद



दिनांक:-02-01-2023

1-गैंगस्टर एक्ट की एक और महिला आरोपी गिरफ्तार, थाना गलशहीद:-*

अवगत कराना है कि दिनांक 07.10.2022 को प्रभारी निरीक्षक श्री लखपत सिंह थाना गलशहीद द्वारा अभियुक्तगण द्वारा एक संगठित गिरोह बनाकर गोवंशीय पशुओ का वध कर आर्थिक एवं भौतिक लाभ अर्जित करने के संबंध में थाना गलशहीद पर मु0अ0सं0-127/2022 धारा- 3(1) गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत कराया। विवेचना के क्रम में आज दिनांक 02-01-2023 को व0उ0नि0 श्री महेशपाल सिंह व म0उ0नि0 समीक्षा थाना गलशहीद द्वारा मय हमराही पुलिस बल के अभियुक्ता कैफी नूर पुत्री स्व0 शमशाद निवासी डहर वाली मस्जिद पक्का बाग असालतपुरा थाना गलशहीद, मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया। मुकदमा उपरोक्त में एक महिला आरोपी की गिरफ्तारी पूर्व में हो चुकी है।

2-अवैध कच्ची शराब के साथ 01 गिरफ्तार, थाना कोतवाली नगर:-

अवगत कराना है कि दिनांक 01-01-2023 को उ0नि0 श्री रामकुमार सोम थाना कोतवाली नगर द्वारा मय हमराही पुलिस बल के अभियुक्त सोनू आनन्द पुत्र अमरजीत आनन्द निवासी गली नं0 5 गायत्री नगर लाइनपार थाना मझोला मुरादाबाद को 05 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0-02/2023 धारा- 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

3-घर में घुसकर मारपीट कर दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार, थाना बिलारी:-

अवगत कराना है कि आज दिनांक 02-01-2023 को वादिनी निवासी थाना बिलारी क्षेत्रान्तर्गत ने अभियुक्त द्वारा वादिनी के घर में घुसकर मारपीट, तोडफोड व वादिनी के साथ दुष्कर्म करने के संबंध में थाना बिलारी पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना बिलारी पर मु0अ0सं0-05/2023 धारा 452/427/323/376 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में आज दिनांक 02-01-2023 को व0उ0नि0 श्री रामनरेश यादव थाना बिलारी द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये मय हमराही पुलिस बल के अभियुक्त मौ0 निजाम पुत्र इबजाल हुसैन निवासी ग्राम सिसौना थाना बिलारी, मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया।

4-इन्वर्टर-बैटरी चोरी के 02 आरोपी गिरफ्तार, थाना सिविल लाईन्स:-

अवगत कराना है दिनांक 28-12-2022 को अज्ञात चोर द्वारा पुलिस क्लब की दुकान का ताला तोड़कर इन्वर्टर बैटरी, इन्टरनेट डिवाइस व अन्य सामान चोरी करने के संबंध में थाना सिविल लाईन्स पर मु0अ0सं0-1097/2022 धारा 457/380 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में आज दिनांक 02-01-2023 को उ0नि0 श्री अनुज कुमार थाना सिविल लाईन्स द्वारा मय हमराही पुलिस बल के प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1- गजेन्द्र सिंह पुत्र बेचे लाल निवासी खुशहालपुर के0के0 पब्लिक स्कूल के पास थाना मझौला मुरादाबाद 2-अरबाज पुत्र जमील अहमद निवासी नया गाँव मऊ हरथला थाना सिविल लाइन्स मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से इन्वर्टर बरामद किया गया है। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भा0द0वि0 की वृद्धि की गयी।

5-अवैध कच्ची शराब के साथ 01 गिरफ्तार, थाना मैनाठेर:-

अवगत कराना है कि दिनांक 01-01-2023 को उ0नि0 श्री मनोज कुमार थाना मैनाठेर द्वारा मय हमराही पुलिस बल के अभियुक्त धर्मवीर पुत्र रामफल निवासी ग्राम सन्दलपुर थाना मैनाठेर, मुरादाबाद को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना मैनाठेर पर मु0अ0सं0-02/2023 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

6-अपहरण कर मारपीट, फोटो वायरल करने का आरोपी गिरफ्तार, थाना छजलैट:-

अवगत कराना है कि दिनांक 22-11-2022 को वादिनी निवासी थाना छजलैट क्षेत्रान्तर्गत ने अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर वादिनी का अपहरण कर मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने, फोटो वायरल करने के संबंध में थाना छजलैट पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना छजलैट पर मु0अ0सं0-244/2022 धारा-147/363/366/323/506 भा0द0वि0 व धारा 72 आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में आज दिनांक 02-01-2023 को उ0नि0 श्री विमल कुमार, उ0नि0 श्री जगजीत सिंह द्वारा मय हमराही पुलिस बल के अभियुक्त शुभम चौधरी पुत्र अरविंद कुमार निवासी ग्राम खदाना थाना धामपुर, बिजनौर को गिरफ्तार किया गया।

7-ट्रक से बैटरा चोरी के 02 आरोपी गिरफ्तार, थाना मैनाठेर:-

अवगत कराना है कि आज दिनांक 02-01-2023 को वादी मुकर्रब हुसैन पुत्र मल्लन हुसैन निवासी डींगरपुर थाना मैनाठेर, मुरादाबाद ने अज्ञात अभियुक्तगण द्वारा वादी के ट्रक से बैटरा चोरी करने के संबंध में थाना मैनाठेर पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना मैनाठेर पर मु0अ0सं0- 03/2023 धारा 379 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में आज दिनांक 02-01-2023 को व0उ0नि0 श्री पवन कुमार शर्मा थाना मैनाठेर द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये मय हमराही पुलिस बल के प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1-शाने आलम पुत्र मौमीन 2-मो0 फेमस पुत्र मौमीन निवासी बरैठा थाना मै0नाठेर, मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी किया गया बैटरा बरामद किया गया है। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भा0द0वि0 की वृद्धि की गयी।